



# अपने हाथ धोएं

20 सेकेंड तक अपने हाथ  
अच्छी तरह सुखाएं

या

हैंड सैनिटाइजर का  
उपयोग करें

और हाथ सूख जाने तक  
आपस में मलें (रगड़ें)



HE2552 AUGUST 2018

New Zealand Government

